

समझौता ज्ञापन

मॉयल लिमिटेड

एवं

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

के मध्य

समझौता ज्ञापन

२०१६-१७



मॉयल लिमिटेड

“मॉयल भवन”, १-ए, काटोल रोड,
नगपूर - ४४० ०१३.



समझौता ज्ञापन

मॉयल मिमिटेड

एवं

**इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार**

के मध्य

समझौता ज्ञापन

२०१६-१७



अनुसूची


क्रं. सं.	विवरण	पेज नं.
१.	निष्पादन मूल्यांकन के मापदंड और लक्ष्य	२-५
२.	रूझान विश्लेषण	६-७
३.	पिछले ५ वर्ष के दौरान वित्तीय कार्य निष्पादन	८
४.	२०१६-१७ के लिये स्वयं घोषणा/प्रमाणिकरण	९

भाग (अ)

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिये प्रत्येक के कार्य निष्पादन संकेत एवं संबंधित भाग नीचे दर्शाये अनुसार है।

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भाग	निष्पादन रेटिंग: 2016-17					दस्तावेजी सक्षय और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट	अति	उत्तम	संतोषजन	निम्न	
				100	80	60	40	20	
१	क्षमता का उपयोग								
	मैंगनीज अयस्क का उत्पादन (कुल)	000 टन	10	1150	1035	1000	975	950	प्रमाणित विवरण
२	क्षमता मापदंड								
५	उत्पादन क्षमता क्षेत्र विशेष परिणाम मूलक गणनीय क्षमता मापदंड)								
(अ)	वित्त वर्ष 2015-16 में बालाघाट खान में विद्युत की खपत से वर्ष 2016-17 में कमी	% कमी केडब्लूएस/एम टी	5	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	प्रमाणित विवरण
(ब)	वित्त वर्ष 2015-16 में कुल मिश्रित उत्पाद में उच्च श्रेणी (फेरो ग्रेड) उत्पादन में सुधार	%	2	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	प्रमाणित विवरण
(क)	वित्त वर्ष 2015-16 में डोंगरी बुजुर्ग खान पर मैंगनीज अयस्क के उत्पादन पर प्रति मेट्रिक टन डीजल खपत से वर्ष 2016-17 में कमी	% कमी ली/मेट्रि. टन	3	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	प्रमाणित विवरण
बी	तकनीकी उन्नयन								
	गुमगांव खान में वेंटिलेशन प्रणाली में सुधार के साथ भूमिगत कार्य करने की परिस्थिती को बेहतर बनाना, तकनीकी रूप से उन्नत पंखे और नियंत्रण प्रणाली तथा ऊर्जा की बचत उपकरण के साथ	दिनांक	5	सितं 30 2016	अक्टू 15 2016	अक्टू 31 2016	नवं 15 2016	नवं 30 2016	प्रमाणित विवरण
सी	अनुसंधान और विकास								
i	भराव सामग्री के रूप में रेत के बदले बेकार पत्थरों का उपयोग के लिये अध्ययन की पूर्णता। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान अथवा अन्य अकादमी संस्थाओं से रिपोर्ट	दिनांक	2	जन. 15 2017	जन 31 2017	फर. 15 2017	फर. 28 2017	मार्च 15 2017	अनुसंधान रिपोर्ट
iii	लाभ शुद्ध मूल्य (पूंजीगत खर्च-कैपेक्स)								
	पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) (अनुलब्ध अ के अनुसार विवरण)	रु. करोड में	15	139.52	132.54	125.91	119.29	112.66	प्रमाणित विवरण
iv	मॉनीटर के परिमाण								
(अ)	कैपेक्स के मूल्य का प्रतिशत ठेका/चालू परियोजनायें/वर्ष के दौरान समय पर पूर्ण/सीएपीइएक्स के कुल मूल्य से अधिक लागत चालू ठेका/वर्ष के दौरान पूर्ण (संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को छोड़ कर) (अनुलब्ध ब के अनुसार विवरण)	%	5	100	90	80	70	60	प्रमाणित विवरण

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार	निष्पादन रेटिंग: 2016-17					दस्तावेजी साक्ष्य और स्रोत/दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट	अति	उत्तम	संतोषजन	निम्न	
				100	80	60	40	20	
v	प्रचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क की शुद्ध)	रु. करोड़ में	5	635.00	615.00	600.00	585.00	570.00	वार्षिक रिपोर्ट
vi	कर पूर्व लाभ (अन्य आय, असाधारण एवं अपवादात्मक मदों को छोड़ कर)	रु. करोड़ में	10	35.00	31.00	25.00	20.00	15.00	वार्षिक रिपोर्ट
vii	कमीयों के पूर्व चिन्ह								
	सीपीएसई एवं अन्य द्वारा उठाये गये कंपनी के विरुद्ध दावों को कर्ज स्वीकार ना करने में कमी	%	5	3.00	2.50	2.00	1.50	1.00	वार्षिक रिपोर्ट
viii	विपणन क्षमता अनुपात								
A	वस्तुसूची का निश्चि माल तथा उत्पाद के बिक्री पर प्रगतिगत कार्य	दिनों की संख्या	5	100.00	110.00	115.00	120.00	125.00	वार्षिक रिपोर्ट
B	कारोबार के प्रतिशत के रूप में प्राप्त व्यापार	%	5	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	वार्षिक रिपोर्ट
ix	निवेशपर प्राप्ति								
(a)	लाभान्श / कर पश्चात लाभ	%	5	59.00	58.00	57.00	56.00	55.00	वार्षिक रिपोर्ट
(b)	कर पश्चात लाभ / शुद्ध मूल्य	%	10	6.00	4.50	4.25	4.00	3.75	वार्षिक रिपोर्ट
(c)	लाभान्श / शुद्ध मूल्य	%	5	3.54	2.61	2.42	2.24	2.06	वार्षिक रिपोर्ट
x	सेक्टर विशेष सीपीएसई								
	सभी बंधनों पर गवेशणात्मक ड्रिलिंग परियोजना	मिटर्स	3	6100	5000	4800	4600	4400	प्रमाणित विवरण
			100						


 (श्री जी.पी. कुंदरणी)
 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
 मॉयल लिमिटेड
 नागपुर


 (श्रीमति अरुणा सुंदरराजन)
 सचिव
 इस्पात मंत्रालय
 नई दिल्ली

दिनांक: 05/07/2016
 स्थान: नागपुर



मॉयल लिमिटेड

नागपुर

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रस्तावित कैपेक्स का विवरण

रु. करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	ब. अ. 2016-17
1	बालाघाट खान पर होम शॉफ्ट का गहरीकरण	12.83
2	बालाघाट खान पर बड़े डाय एवं उच्च गति के वर्टिकल शॉफ्ट की सिंकिंग	1.00
3	मनसख खान पर नये वर्टिकल शॉफ्ट की सिंकिंग चरण-II	4.00
4	चिखला खान पर नये वर्टिकल शॉफ्ट की सिंकिंग चरण-II	4.50
5	उकवा खान पर नये वर्टिकल शॉफ्ट की सिंकिंग चरण-II	4.00
6	गुमगांव खान पर उच्च गति का नये वर्टिकल शॉफ्ट की सिंकिंग चरण-II	1.00
7	कान्दूरी खान पर वर्टिकल शॉफ्ट का गहरीकरण	3.00
8	सौर ऊर्जा परियोजना	0.50
9	सेल (SAIL) के साथ फेरो मँगनीज/सिलिको मँगनीज संयंत्र के लिये संयुक्त उद्यम में निवेश	0.25
10	आरआईएनएल (RINL) के साथ संयुक्त उद्यम ब्रोबिली में फेरो मँगनीज संयंत्र	0.25
11	नये क्षेत्रों का विकास एवं भूमि का अधिग्रहण, प्रोस्पेक्टिंग एवं गवेषणा का समावेश करते हुये वन एवं पर्यावरण स्विकृती	2.94
A	योजनाये: उप-कुल	34.27
B	योग/संशोधन एवं प्रतिस्थापना	74.22
C	टॉउनशिप	28.87
D	अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत)	2.16
	सकल योग	139.52



मॉयल लिमिटेड

नागपुर

मॉनीटरिंग परिभाषा : वित्तीय वर्ष 2016.17 के दौरान कंपेक्स परियोजनाओं के लिये मॉनीटरिंग

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (रु. करोड में)	पूर्ण होने की तिथि	2016-17 के दौरान माइल्स्टोन	2016-17 के दौरान माइल्स्टोन पूर्ण होने की तिथि	2016-17 के दौरान लगने वाली लागत (रु. करोड में)
1	बालाघाट खान पर होम शॉपट का गहरीकरण	28.30	नव. 2016	शॉपट के गहरीकरण कार्य की पूर्णता	31/12/2016	12.83
2	चिखला खान पर द्वितीय वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग	48.70	2018-19	80 मिटर तक वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग	30/10/2016	4.50
3	मनसर खान पर द्वितीय वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग	51.32	2019-20	50 मिटर तक वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग	21/1/2017	4.00
4	कान्द्री खान पर वर्टिकल शॉपट का गहरीकरण	14.82	2018-19	20 मिटर तक वर्टिकल शॉपट का गहरीकरण	15/2/2017	3.00
5	बालाघाट खान पर बड़े डाय एवं उच्च गति के वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग	-	-	-	टोकन प्रावधान	1.00
6	उकवा खान पर नये वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग चरण-II	-	-	-	टोकन प्रावधान	4.00
7	गुमगांव खान पर उच्च गति का नये वर्टिकल शॉपट की सिंकिंग चरण-II	-	-	-	टोकन प्रावधान	1.00
8	सौर ऊर्जा परियोजना	-	-	-	टोकन प्रावधान	0.50
9	सेल (SAIL) के साथ फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज संयंत्र के लिये संयुक्त उद्यम में निवेश	-	-	-	टोकन प्रावधान	0.25
10	आरआईएनएल (RINL) के साथ संयुक्त उद्यम बोबिली में फेरो मैंगनीज संयंत्र	-	-	-	टोकन प्रावधान	0.25
11	नये क्षेत्रों का विकास एवं भूमि का अधिग्रहण, प्रोस्पेक्टिंग एवं गवेषणा का समावेश करते हुये वन एवं पर्यावरण स्वीकृति	-	-	-	31/03/2017	2.94
12	योग/संशोधन एवं प्रतिस्थापना	-	-	-	31/03/2017	74.22
13	टॉउनशिप	-	-	-	31/03/2017	28.87
14	अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत)	-	-	-	31/03/2017	2.16
	सकल योग					139.52

भाग (ब)



मॉयल लिमिटेड
रूढ़ान विश्लेषण

क्र. सं.	मूल्यांकन परिमाण इकाई	इकाई	वित्तीय वर्ष					
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 प्रायोजित
i	मैंगनीज अयस्क का उत्पादन (कुल)	000T	1071	1139	1135	1138	1032	1035
ii	क्षमता परिमाण (भाग अ पर आधारित)							
A	उत्पादन क्षमता (सेक्टर विशेष परिणाम उन्मुख गणनीय क्षमता परिमाण)							
(a)	वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में बालाघाट खान पर ऊर्जा खपत में कमी	% कमी / MT	NA	NA	NA	NA	NA	0.40
(b)	वित्तीय वर्ष 2015-16 मिक्स ओवर कुल उत्पादन में उच्च श्रेणी (फेरो ग्रेड) में सुधार	%	NA	NA	NA	NA	NA	1.90
(c)	वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में डोंगरी बुजुर्ग खान पर प्रति मेट्रिक टन मैंगनीज अयस्क के उत्पादन पर डिजल खपत में कमी	% कमी लि. / MT	NA	NA	NA	NA	NA	1.25
B	तकनीकी उन्नयन (तकनीकी उन्नयन/प्रचालन वातावरण के लिये सेक्टर विशेष कदम)							
	तकनीकी तौर पर प्रगत पंखे एवं उसकी नियंत्रण प्रणाली तथा ऊर्जा बचत उपकरण के साथ गुमगांव खान पर वेंटिलेशन प्रणाली में सुधार के द्वारा भूमिगत कार्यस्थिति क्षमता में सुधार	दिनांक	NA	NA	NA	NA	NA	15.10.2016
C	अनुसंधान एवं विकास (अनुसंधान एवं विकास का वाणिज्यकरण से उपलब्धीयां, तकनीकी उन्नयन की ओर ले जा रही है)							
i	भराव सामग्री के रूप में रेत के बदले बेकार पत्थरों का उपयोग के लिये अध्ययन पूर्ण	दिनांक	NA	NA	NA	NA	NA	31.01.2017
iii	पूँजीगत खर्च (सीएपीइएक्स)	रु. करोड में	51.68	56.93	85.46	114.78	119.65	132.54
iv	प्रदत्त अंश पूँजी	रु. करोड में	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
v	संचित भंडार	रु. करोड में	2273.31	2597.64	2959.33	3213.70	3285.37	3335.40
vi	शुद्ध मूल्य	रु. करोड में	2441.31	2765.64	3127.33	3381.70	3453.37	3503.40
vii	उधार (नैर वर्तमान देयता में दर्शाया गया है)	रु. करोड में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
viii	उधार / शुद्ध मूल्य	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ix	सीएपीइएक्स ठेके का मूल्य/चालू परियोजनायें/वर्ष के दौरान समय पर पूर्ण/चालू सीएपीइएक्स ठेके के कुल मूल्य से अधिक लागत वर्ष के दौरान पूर्ण का प्रतिशत (जहां कहीं लागू हो)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
x	प्रचालन से राजस्व (सकल)	रु. करोड में	905.68	975.03	1028.45	831.16	634.60	622.66
xi	प्रचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क का निवल)	रु. करोड में	899.58	967.12	1021.28	823.25	628.74	615.36

क्र. सं.	मूल्यांकन परिमाण इकाई	इकाई	वित्तीय वर्ष					
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 प्रायोजित
xii	कर पूर्व लाभ	रु. करोड़ में	606.63	636.78	769.33	650.57	270.26	253.37
xiii	अन्य आय	रु. करोड़ में	203.32	235.27	303.32	316.61	252.16	205.00
xiv	असामान्य मद	रु. करोड़ में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xv	अपवादात्मक मद	रु. करोड़ में	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00
xvi	कर पूर्व लाभ (अन्य आय, असामान्य एवं अपवादात्मक मदों को छोड़ कर)	रु. करोड़ में	403.31	401.51	466.01	333.96	18.10	31.00
xvii	कर पश्चात लाभ	रु. करोड़ में	410.77	431.72	509.56	428.01	172.98	165.68
xviii	प्रचालन से राजस्व (शुद्ध/कुल खर्च [यदि अलग से बताये गये हो तो असामान्य/अपवादात्मक मद एवं कर (आयकर) खर्च])	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
xix	रु 5000 पीएमटी दर पर अनुमानित सिद्ध माल (मैंगनीज अयस्क) की बंद वस्तुसूचि	रु. करोड़ में	57.08	30.72	20.63	109.38	130.46	162.50
xx	प्रगति पर चल रहे काम की बंद वस्तुसूचि	रु. करोड़ में	NA	NA	NA	NA	NA	NA
xxi	उत्पादन की बिक्री (उत्पाद शुल्क का निवल)	रु. करोड़ में	899.58	967.12	1021.28	823.25	628.74	615.36
xxii	सिद्ध माल के वस्तुसूचि की दिनों की संख्या एवं उत्पादन को बेचने का चल रहा कार्य (जहां कहीं लागू हो)	दिनों की संख्या	54	26	17	130	105	110
xxiii	छः माह से अधिक प्राप्य व्यापार	रु. करोड़ में	NA	NA	NA	NA	NA	NA
xxiv	प्राप्य व्यापार (कुल)	रु. करोड़ में	99.33	288.10	113.18	107.27	142.05	155.66
xxv	प्रचालन से प्राप्य व्यापार के राजस्व का प्रतिशत (सकल)	%	10.97	29.55	11.00	12.91	22.38	22.00
xxvi	नगद एवं बैंक का शेष	रु. करोड़ में	2088.42	2276.78	2792.83	2829.89	2850.10	2800.00
xxvii	कर पश्चात लाभ/शुद्ध मूल्य	%	16.83	15.61	16.29	12.66	5.01	4.50
xxviii	लाभांश/ कर पश्चात लाभ	%	20.45	21.40	24.73	33.36	48.56	58.00
xxix	लाभांश/शुद्ध मूल्य अथवा अधिशेष/ शुद्ध मूल्य	%	3.44	3.34	4.03	4.22	4.14	2.61
xxx	कंपनी के विरुद्ध दावे जो कर्ज नहीं माने गये	रु. करोड़ में						
xxxi	सीपीएसई विशेष/सेक्टर विशेष							
	सभी खानों पर गवेशणात्मक ड्रिलिंग परियोजना	मि.	5031	5573	5743	6096	5633	5000
xxxii	स्थापित संसाधन		NA	NA	NA	NA	NA	NA
xxxiii	पूरीनियोजित अधिशेष		NA	NA	NA	NA	NA	NA
xxxiv	प्रमुख खर्च		NA	NA	NA	NA	NA	NA



मॉयल लिमिटेड

पिछले पांच सालों के लिये वित्तीय मापदंड पर कार्य निष्पादन का रूझान

(₹ Crores)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
	एमओयू	वास्त.	एमओयू	वास्त.	एमओयू	वास्त.	एमओयू	वास्त.	एमओयू	वास्त.	
उत्पादन (मैंग. अयस्क) फाईंस छोडकर (000 टन)	830	839	900	883	875	875		977		906	
उत्पादन (मैंग. अयस्क) फाईंस (000 टन)	320	232	250	256	250	250		162		126	
कुल उत्पादन (000 ट.)	1150	1071	1150	1139	1125	1135	1125	1139	1140	1032	1035
उत्पादन (रू. करोड़ में)	486.35	502.37	473.81	573.51	555.14	562.44	556.00	497.20	610.94	616.50	574.29
सकल बिक्री	1150.00	905.68	793.84	975.03	797.43	1028.45	900.00	831.16	866.62	634.60	622.66
उत्पाद शुल्क एवं रॉयल्टी	49.77	39.20	36.06	44.29	23.00	45.77	42.00	41.80	46.62	42.76	43.85
शुद्ध बिक्री	1100.23	866.48	757.78	930.74	774.43	982.68	858.00	789.36	820.00	591.84	578.81
ब्याज एवं अन्य आय	86.00	203.32	160.00	235.27	209.51	303.32	245.00	316.61	285.00	252.16	205.00
सकल प्रचालन मार्जिन दर (%)	69.87%	58.39%	58.23%	55.85%	51.88%	57.32%	50.43%	55.92%	42.01%	19.47%	23.42%
सकल प्रचालन मार्जिन	768.73	505.95	441.26	519.80	401.75	563.27	432.72	441.41	344.52	115.26	135.57
ईबीआयटीडीए	782.00	636.54	516.00	669.81	526.00	804.51	592.46	695.65	575.96	322.73	302.25
मूल्य ह्रास	32.35	29.91	35.97	33.03	36.63	35.18	36.80	45.08	35.28	52.47	48.88
ईबीआयटी	749.65	606.63	480.03	636.78	489.37	769.33	555.66	650.57	540.68	270.26	253.37
ब्याज खर्च											
पूर्वकालिन खर्च											
असामान्य मद											
कोई अन्य खर्च											
कर पूर्व लाभ	749.65	606.63	480.03	636.78	489.37	769.33	555.66	650.57	540.68	270.26	253.37
कर	249.01	195.86	159.45	205.06	166.34	259.77	188.87	222.56	187.12	97.28	87.69
कर पश्चात लाभ	500.64	410.77	320.58	431.72	323.03	509.56	366.79	428.01	353.56	172.98	165.68
लाभान्श का भुगतान	100.13	84.00	64.12	92.40	64.61	126.00	73.36	142.80	142.80	84.00	96.09
सांख्यिक भंडार को लाभ का स्थानांतरण											
अन्य कोई मद											
तुलन पत्र को लाभ का	366.00	300.00	241.00	325.00	247.00	370.00	281.00	250.00	181.53	75.00	50.03
तुलन पत्र के मद											
सकल खंड	479.16	422.58	509.46	479.91	596.66	510.07	617.90	610.72	671.44	671.88	730.48
कम : मूल्यह्रास	223.09	215.53	259.41	246.39	296.28	277.73	319.82	316.81	352.09	360.98	409.86
शुद्ध खंड	256.07	218.72	250.05	233.52	300.38	232.34	298.08	293.91	319.35	310.90	320.62
प्रदत्त अंश पूंजी	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
आवृक्षित एवं अधिशेष	2340.80	2273.30	2512.83	2597.64	2766.82	2959.33	3047.78	3213.70	3395.23	3285.37	3335.40
कम-विलम्बीत राजस्व खर्च/पूर्व अधिग्रहण हादि											
कम:लाभ एवं हादि लेखा											
शुद्ध मूल्य	2508.80	2441.30	2680.83	2765.64	2934.82	3127.33	3215.78	3381.70	3563.23	3453.37	3503.40
निवेश	60.21	4.21	82.21	4.21	72.21	4.21	4.21	4.21	4.21	0.21	0.21
कुल चालू संपत्ती	2455.58	2479.55	2609.72	2846.99	2646.79	3471.83	2840.23	3647.95	3830.35	3269.82	3433.31
कुल चालू देयता एवं प्रावधान	279.94	229.36	307.11	275.17	296.54	344.50	344.09	266.25	279.56	254.57	267.30
शुद्धचालू संपत्ती	2175.64	2250.19	2302.61	2571.82	2350.25	3127.33	2496.14	3381.70	3550.79	3015.25	3166.01
नियोजित पूंजी	2431.71	2468.91	2552.66	2734.45	2650.63	3359.67	2794.22	3675.61	3870.14	3326.15	3486.63
(शुद्ध खंड + शुद्ध चालू संपत्ती)											
नियोजित पूंजी											
(शुद्ध मूल्य . सीडब्लूआईपी. निवेश)	2431.71	2539.76	2552.66	2734.45	2850.63	3054.14	2794.22	3324.59	3357.41	3372.76	3460.13
कुल संपत्ती	2756.63	2743.25	2914.17	3134.91	2947.17	3704.17	3138.31	3941.86	4149.70	3580.72	3753.93
अनुपात											
कर पश्चात लाभ/शुद्ध मूल्य	19.96	16.83	11.96	15.61	11.01	16.29	11.41	12.66	9.92	5.01	4.73
ईबीआईटीडीए/ शुद्ध खंड	305.39	291.03	206.36	286.83	175.11	346.26	198.76	236.69	180.35	103.81	94.27



स्वयं घोषणा / प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष २०१६-१७ के लिए समझौता ज्ञापन हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों में दर्शाए गए मानकों एवं परिभाषा का अंगीकार करते हुए, समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों अनुसार वित्तीय परिमाण के संबंध में, लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धियों की गणना की गई है। यदि कार्य निष्पादन के आकलन के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए डी.पी.ई. स्वतंत्र है। सी.पी.एस.ई. को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जी.पी.कुंदरणी

(जी.पी.कुंदरणी)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक